



दिनांक:- 31.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



खरेला पुलिस एवं सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की 04 अदद भगवान की मूर्ति सहित
07 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।
अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद



दिनांक 15.12.2020 को वादी श्री विशम्भर प्रसाद तिवारी नि0ग्राम ऐचाना थाना खरेला द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मंदिर से मूर्ति चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 152/20 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था ।

इस घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्र0नि0 खरेला एवं सर्विलांस/स्वाट टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे ।

जिसके क्रम में आज दिनांक 31.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व सीओ सिटी श्री कालू सिंह के पर्वेक्षण में प्र0नि0 खरेला श्री अनिल कुमार मय टीम व सर्विलांस/स्वाट की टीम संयुक्त टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए **ग्राम ऐचाना के श्रीराम जानकी मन्दिर से चुराई गई 04 अदद मूर्तियाँ- भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला व 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज एवं 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01**



दिनांक:- 31.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज सहित 07 नफर अभियुक्तगण 1. अवधेश कुमार पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम चकदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर 2. सुरेन्द्र यादव पुत्र गोरेलाल यादव निवासी चकदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर 3. जगदीश यादव पुत्र भेल्ला निवासी ग्राम चकदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर 4. बड़नका यादव पुत्र बौरा यादव नि0 रतौला थाना बिवांर जनपद हमीरपुर 5. धर्मपाल उर्फ डाक्टर पुत्र रामसहाय नि0 ग्राम धनपुरा थाना बिवांर जनपद हमीरपुर 6. छेदू मियां पुत्र मोहब्बत नि0 चकदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर 7. रविन्द्र सेन पुत्र छिदू नाई नि0 पारा थाना बिवार जनपद हमीरपुर को ग्राम बसौठ तिराहा थाना खरेला जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त 1. छेदू मियां उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ व अभियुक्त 2. रविन्द्र सेन उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्तगण छेदू व रविन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु0अ0सं0 157/20 व 158/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। समस्त अभियुक्तगणो को बाद आवश्यक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

1. अवधेश कुमार पुत्र सुखदेव
2. सुरेन्द्र यादव पुत्र गोरेलाल यादव
3. जगदीश यादव पुत्र भेल्ला निवासीगण ग्राम चकदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
4. बड़नका यादव पुत्र बौरा यादव नि0 रतौला थाना बिवार जनपद हमीरपुर
5. धर्मपाल उर्फ डाक्टर पुत्र रामसहाय नि0 ग्राम धनपुरा थाना बिवार जनपद हमीरपुर
6. छेदू मिया पुत्र मोहब्बत नि0 चकदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
7. रविन्द्र सेन पुत्र छिदू नाई नि0 पारा थाना बिवार जनपद हमीरपुर

बरामदगी:-

1. 04 अदद मूर्तियाँ- भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला।
2. 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद।
3. 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।



दिनांक:- 31.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-

1. अनिल कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला
2. उ०नि० सुमेर सिंह
3. का० शैलेन्द्र प्रजापति
4. का० राहुल यादव

सर्विलांस/स्वाट टीम का विवरण:-

1. उ०नि० भूपेन्द्र सिंह प्रभारी स्वाट टीम
2. उ०नि० राज बहादुर सिंह स्वाट टीम
3. का० नरेन्द्र कुमार स्वाट टीम
4. का० धर्मेन्द्र सिंह स्वाट टीम
5. उ०नि० राहुल परमार प्रभारी सर्विलांस
6. का० अंशुल दूबे सर्विलांस टीम

घोषित पुरस्कार:-

1. पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा टीम को 10000/-रु०
2. श्रीमान आई०जी० महोदय, परिक्षेत्र बाँदा द्वारा 15000/- रु०

Mahoba Police



दिनांक:- 31.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



पनवाड़ी पुलिस द्वारा वाँछित अभियुक्त को आलाकत्ल सहित किया गिरफ्तार



आज दिनांक 31.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वारन्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० पनवाड़ी श्री निरीक्षक विनोद कुमार यादव मय हमराहियान के जरिए मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 247/2020 धारा 307/504 IPC से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त प्रदीप

कुमार पुत्र सन्तोष कुमार श्रीवास निवासी मु० पठानपुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा को निसवारा चौराहा कस्बा पनवाड़ी के पास से उक्त अभियोग में प्रयुक्त आला कत्ल छूरी (चाकू) के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 248/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

प्रदीप कुमार पुत्र सन्तोष कुमार श्रीवास निवासी मु० पठानपुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- SHO श्री विनोद कुमार यादव
- 2- उ०नि० श्री श्रीपाल सिंह
- 3- उ०नि० श्री शेरेआलम खां
- 4- का. अवनीश सरोज
- 5- का. शिवम कुमार

बरामदगी –

आलाकत्ल मु.अ.सं. 247/2020 धारा 307/504 IPC से सम्बन्धित छूरी(चाकू)।



दिनांक:- 31.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



कोतवाली नगर पुलिस ने वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 31.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वारन्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० कोतवाली नगर श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा गठित टीम व०उ०नि० आनन्द कुमार, कां० राममिलन सिंह द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार उर्फ शीलू पुत्र नरेश चतुर्वेदी नि०मु० मलकपुरा थाना कोत० नगर जनपद महोबा, मूल पता ग्राम त्रिवेणी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा, सम्बन्धित मु०अ०सं० 683/20 धारा 364 भादवि को कीरत सागर महोबा से गिरफ्तार कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

शैलेन्द्र कुमार उर्फ शीलू पुत्र नरेश चतुर्वेदी नि०मु० मलकपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, मूल पता ग्राम त्रिवेणी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. व०उ०नि० श्री आनन्द कुमार
2. कां० राममिलन सिंह



दिनांक:- 31.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबकण्ठ पुलिस ने वारन्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 31.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वारन्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम उ०नि० सूरज प्रसाद मय हे०का० शिशुपाल के मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम रिवाई थाना महोबकण्ठ से **परिवाद संख्या 863/18 धारा 452/323/504/506 भादवि** से सम्बन्धित वारन्टी अभियुक्त देवकरन पुत्र फूल सिंह राजपूत उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम रिवाई थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

देवकरन पुत्र फूल सिंह राजपूत उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम रिवाई थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० सूरज प्रसाद
2. हे.का.शिशुपाल



दिनांक:- 31.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति” अभियान के तहत एण्टी रोमियो टीम द्वारा रामकथा मार्ग, महोबा में जाकर छात्राओं को किया जागरूक



आज दिनांक 31.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे “मिशन शक्ति” कार्यक्रम के तहत प्रभारी एण्टी रोमियो टीम उ0नि0 शिल्पी शुक्ला मय टीम द्वारा रामकथा मार्ग, महोबा में स्थित कोचिंग सेन्टरो की

छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090,181,112,1076 आदि नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें साइबर अपराध एवं महिला कानूनों की भी जानकारी दी गई। एण्टी रोमियो टीम द्वारा बताया गया कि जनपद के प्रति थाने में “महिला हेल्प डेक्स” बनाया गया है। जहाँ महिलाएं बेहिचक अपनी समस्याओं को बता सकती हैं एवं उनका तत्परता के साथ निस्तारण भी किया जाएगा।





दिनांक:- 31.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस से 01 उप-निरीक्षक व 02 मुख्य आरक्षी हुये
सेवानिवृत्त, दी गयी भावभीनी विदाई



आज दिनांक 31/12/2020 को पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में 01 उप-निरीक्षक व 02 मुख्य आरक्षी के सेवानिवृत्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा

उपहार/शाल देकर सम्मानित किया गया एवं उनके द्वारा जनपद को दी गयी सराहनीय सेवा को याद किया गया। 1. उ0नि0 अर्जुन सिंह 2. मु0आ0 गीता देवी 3. मु0आ0चा0 कमलेश चन्द्र द्विवेदी, ये सभी अपनी-अपनी उ0प्र0 पुलिस सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये। इस मौके पर प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह, एमटीओ श्री ललित नारायण द्विवेदी, पीआरओ एसपी उ0नि0 राजेश मौर्य सहित कई शाखा के शाखा-प्रभारी मौजूद रहे।





दिनांक:- 31.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद महोबा मे चलाया गया सघन चेकिंग अभियान एवं कोविड-19 के प्रति लोगों को किया गया जागरूक एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर किये गये ई-चालान

आज दिनांक 31.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के सभी थाना क्षेत्रों में कोविड-19 का पालन कराये जाने तथा के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, मुसाफिर खाना, बाजार, चौक आदि स्थानों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। जिसके तहत कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन पर थानों द्वारा कोविड-19 के उल्लंघन पर 51 व्यक्तियों से 7900/-रु0 जुर्माना वसूला गया तथा उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश के अन्तर्गत जाति सूचक व अन्य चिन्ह अंकित कर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गयी एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर 147 ई-चालान एवं 07 न्यायालय चालान किये गये।

जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंस (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।





दिनांक:- 31.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा चलाये जा रहे 'गुड मॉर्निंग महोबा' अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा मार्निंग वाक कर रहे बच्चों व बुजुर्गों से वार्ता की ट्रक चालको का भी हाल जाना। पुलिस को अपने बीच पाकर ट्रक चालको की खुशी देखते ही बन रही थी।



Mahoba Police



सोशल मीडिया सेल
दिनांक 31.12.2020